

**राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश**  
**में दिनांक 16-मार्च-2016 को**  
**हिंदी समिति की बैठक, हिंदी कार्यशाला एवं हिंदी संगोष्ठी का आयोजन**

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सरकार की राजभाषा नीति के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों में वर्ष की प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक, हिंदी की कार्यशाला एवं हिंदी संगोष्ठी का आयोजन अपेक्षित है।

इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2015-16 की अंतिम तिमाही (01-जनवरी-2016 से 31-मार्च-2016) के दौरान दिनांक 16-मार्च-2016 को कार्यालय की हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक, हिंदी कार्यशाला एवं हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को पूर्व में सूचित किया गया, एवं इसी प्रकार से कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी कार्यशाला व हिंदी संगोष्ठी के आयोजन के लिए भी पूर्व में सूचित किया गया था।

सबसे पहले कार्यालय की हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन पूर्व निर्धारित समय अनुसार किया गया एवं बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया। समिति की बैठक में एन.आई.सी. हि.प्र. एवं समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की गयी। एवं यह पाया गया, कि श्री अजय सिंह चैहल, राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी जी के मार्गदर्शन में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा कार्यालय में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है।



हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक के तत्पश्चात हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिंदी कार्यशाला के आयोजन हेतु कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से

अपने-अपने नाम कार्यशाला के आरम्भ होने से पूर्व सूचित करने का अनुरोध किया गया था, जिन्हें कार्यालय में अथवा अपने कार्यक्षेत्र में हिंदी में कार्य करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही हो। परन्तु किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी ने अपना नाम नामित नहीं किया एवं सभी ने सूचित किया, कि उनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार कार्यशाला के दौरान सभी उपस्थित महानुभावों ने विचारों का आदान-प्रदान किया, विचारों के आदान-प्रदान के दौरान मूल विषय अपने-अपने कार्ययालयों एवं कार्यक्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग एवं बढ़ावा देना ही रहा। इस प्रकार से विशेष कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया।



हिंदी कार्यशाला के तत्पश्चात एन.आई.सी. हिमाचल प्रदेश कार्यालय में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हि.प्र. राज्य केंद्र एवं सभी अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। जिला केन्द्रों एवं अन्य कार्यालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कार्यशाला एवं संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राजभाषा हिंदी को कार्यालय के कार्यों में प्रयोग करने एवं बढ़ावा देने हेतु अपने-अपने विचार रखे, जो कि सभी के लिए अत्यंत उत्साह पूर्ण थे। संगोष्ठी के दौरान श्री आखिलेश भारती जी, श्री विनोद गर्ग जी एवं श्री विमल कुमार शर्मा जी का योगदान विशेष रूप से रहा।

हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठी में निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

क्रम सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	क्रम सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम
1	अजय सिंह चौहल	21	राकेश कुमार
2	ललित कपूर	22	वीरेन्द्र प्रताप गुप्ता
3	संदीप सूद	23	विनोद कुमार गर्ग
4	विजय कुमार गुप्ता	24	भुपिंदर सिंह
5	संजय कुमार	25	भुपिंदर पाठक
6	संजय शर्मा	26	अक्षय मेहता
7	विमल कुमार शर्मा	27	बलवान सिंह
8	शैलेंद्र कौशल	28	ब्रिजेन्द्र कुमार डोगरा
9	संदीप कुमार	29	राजीव कुमार
10	दलजीत सिंह राणा	30	अखिलेश भारती
11	संजीव कुमार गुप्ता	31	अश्वनी कुमार
12	आशीष शर्मा	32	पंकज गुप्ता
13	सी. एल. कश्यप	33	दीपक कुमार
14	मुकेश कुमार	34	विजय कुमार
15	प्रवीण शर्मा	35	मोहन राकेश अग्रवाल
16	सर्वजीत कुमार	36	संजीव कुमार कश्यप
17	वंदना धीमान	37	संजीव कुमार
18	अमित कन्नोजिआ	38	जरनैल सिंह
19	पृथ्वी राज नेगी	39	शंकर लाल
20	हमेंदर लाल		

इसके उपरांत श्री अजय सिंह चौहल, राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी जी ने अवगत करवाया, कि राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्पूर्ण सहयोग से हिंदी में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, एवं तकनीकी विभाग/कार्यालय होने उपरांत हिंदी में कार्यालय का पत्राचार गत एक वर्ष में 5% से बढ़कर 86% हो गया है। कार्यालय में प्राप्त अधिक से अधिक तकनीकी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है, एवं कुछ विशेष उद्देश्य वाले तकनीकी पत्रों का उत्तर हिंदी के आवरण पत्र सहित दिया जाता है। और भविष्य में कार्यालय का पत्राचार शत-प्रतिशत हिंदी में करने के प्रयास किये जायेंगे।

हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठी के दौरान प्रदेश के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने-अपने विचार रखे, जो कि सभी के लिए अत्यंत उत्साह पूर्ण थे। विचारों की प्रस्तुति के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2016-17 के वार्षिक कार्यक्रम के बारे में विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई, तथा श्री अजय सिंह चौहल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी जी के मार्गदर्शन में सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन करने पर सहमती जताई। इसी के साथ हिंदी संगोष्ठी एवं हिंदी कार्यशाला के समारोह का समापन हुआ।